

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 सितंबर 2022

### प्रश्न -1

विमानन प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

- A) फ्रांस
- B) जर्मनी
- C) नीदरलैंड
- D) स्वीडन

**सही उत्तर: D**

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और स्वीडन की LFV एयर नेविगेशन सर्विसेज ने विमानन प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

### प्रश्न -2

भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र 'ऑल थिंग्स ईवी' निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था?

- A) बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस
- B) HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस
- C) एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस
- D) ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस

**सही उत्तर: B**

HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश का पहला वन-स्टॉप-सॉल्यूशन पोर्टल 'ऑल थिंग्स ईवी' लॉन्च किया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 सितंबर 2022

### प्रश्न -3

निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी प्रैक्टिस हरुन इंडिया PE परफॉर्मर्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर है?

- A) ACME फाउंडेशन
- B) इकोम एक्सप्रेस
- C) एन्क्यूब एथिकल्स
- D) होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड (मामाअर्थ)

**सही उत्तर: D**

प्रैक्टिस हरुन इंडिया PE परफॉर्मर्स 2022 के अनुसार पर्सनल केयर ब्रांड मामाअर्थ की मूल कंपनी, होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

### प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किसे ड्रीमसेटगो का पहला ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था?

- A) कपिल देव
- B) महेंद्र सिंह धोनी
- C) सचिन तेंदुलकर
- D) सौरव गांगुली

**सही उत्तर: D**

ड्रीमसेटगो, स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस और ट्रैवल प्लेटफॉर्म, ने सौरव गांगुली को अपना पहला ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 सितंबर 2022

### प्रश्न -5

\_\_\_\_\_ एयरलाइन AI-पावर्ड CAE राइज™ प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई।

- A) एयरएशिया इंडिया
- B) गो फर्स्ट
- C) इंडिगो
- D) स्पाइसजेट

#### सही उत्तर: A

एयरएशिया इंडिया CAE राइज का उपयोग करते हुए डेटा-संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाने वाली भारत की पहली एयरलाइन है। CAE राइज™ प्रशिक्षण सत्रों के दौरान रीयल-टाइम डेटा प्रदान करते हुए प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए एनालिटिक्स का लाभ उठाता है।

### प्रश्न -6

भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अपस्किल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में एक अभियान की घोषणा की है?

- A) एडोब
- B) ऐप्पल
- C) गूगल
- D) माइक्रोसॉफ्ट

#### सही उत्तर: C

सर्च और इंटरनेट दिग्गज गूगल ने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अपस्किल करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 सितंबर 2022

### प्रश्न -7

\_\_\_\_\_ देश ने एक बार फिर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

- A) बेल्जियम
- B) जापान
- C) दक्षिण कोरिया
- D) उत्तर कोरिया

**सही उत्तर: C**

ब्लूमबर्ग की एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

### प्रश्न -8

निम्नलिखित में से कौन लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने?

- A) बजरंग पुनिया
- B) जेरेमी लालरिनुंगा
- C) मीराबाई चानू
- D) नीरज चोपड़ा

**सही उत्तर: D**

ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, वह लुसाने डायमंड लीग मीट खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 सितंबर 2022

### प्रश्न -9

119 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद \_\_\_\_\_ को दूसरा रेलवे स्टेशन मिला।

- A) मणिपुर
- B) नागालैंड
- C) सिक्किम
- D) त्रिपुरा

**सही उत्तर: B**

नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन धनसारी-शोखुवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद मिला है, जब से दीमापुर स्टेशन 1903 में खोला गया था।

### प्रश्न -10

महिला समानता दिवस कब मनाया गया?

- A) 25 अगस्त
- B) 24 अगस्त
- C) 26 अगस्त
- D) 22 अगस्त

**सही उत्तर: C**

महिला समानता दिवस हर 26 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है।